



रामाज्ञा स्कूल, नाँएडा  
कक्षा-छ /विषय-हिंदी /२०१७-१८  
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

**निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए**

हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिला सकते हैं। नंगे का तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं। धर्मशालाएं बनवा सकते हैं। गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं, तो तन मन से भी-दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ सुखशान्ति-प्राप्त कर सकता है। इससे प्राप्त धन से बच्चों का पेट पाल सकता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटके को-राह दिखला सकते हैं। प्यासे को पानी पिला सकते हैं। अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं।

1. धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं ?

- (क) दूसरों का हित
- (ख) भूखे को रोटी खिला सकते हैं
- (ग) नंगे को वस्त्र दे सकते हैं
- (घ) उपर्युक्त सभी

2. सच्चा दान क्या है ?

- (क) धन का दान
- (ख) शिक्षा का दान
- (ग) पैसे का दान
- (घ) अन्न का दान

3. शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है-?

- (क) प्यासे को पानी पिलाना
- (ख) भूलेभटके को राह दिखाना-
- (ग) अबलाओं की रक्षा करना
- (घ) उपर्युक्त सभी

**निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -**

4. हमारी राष्ट्र भाषा क्या है ?

- (क) मराठी
- (ख) अवधी
- (ग) भोजपुरी
- (घ) हिंदी

5. 'गुलाबी' शब्द में कौन सा प्रत्यय है?

- (क) इ (ख) उ (ग) ऊ (घ) ई
6. मौखिक भाषा किसे कहते हैं ?  
 (क) जिसे हम पढ़ते हैं (ख) जिसे हम सुनते हैं  
 (ग) जिसे हम लिखते हैं (घ) जिस भाषा को हम अपने मुख से बोलते हैं
7. 'असफल' शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ?  
 (क) अ (ख) आ (ग) ला (घ) फल
8. 'आँख' शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है ?  
 (क) मनोहर (ख) नभ (ग) पवन (घ) तरु
9. 'जिसके आने की तिथि न हो' का उचित विकल्प है-  
 (क) तिथिहीन (ख) मेज़बान (ग) अतिथि (घ) पत्रकार
10. 'वह मंदिर जा रहा है' वाक्य किस प्रकार का है ?  
 (क) भूतकाल (ख) वर्तमानकाल (ग) भविष्यकाल (घ) इनमें से कोई नहीं
11. 'मान' का सही विलोम शब्द है-  
 (क) अपमान (ख) दान (ग) प्रतिष्ठा (घ) अमान
12. इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है ?  
 (क) जातिवाचक (ख) भाववाचक (ग) कर्मवाचक (घ) व्यक्तिवाचक
13. संज्ञा के कितने भेद होते हैं ?  
 (क) चार (ख) तीन (ग) छ (घ) पाँच
14. व्यक्ति अपने भावों-विचारों को कैसे प्रकट करता है ?  
 (क) बोलकर (ख) लिखकर (ग) सुनकर (घ) उपर्युक्त सभी
15. 'चित्र की सुन्दरता देखने योग्य थी'- वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है ?  
 (क) चित्र (ख) सुन्दरता (ग) देखने (घ) योग्य
16. 'गुरु' शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है-  
 (क) गुरुवी (ख) गुरुमती (ग) गुरुआइन (घ) गुरुवती
17. हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं ?  
 (क) एक (ख) दो (ग) तीन (घ) चार
18. 'कन्या' का बहुवचन होगा-  
 (क) कन्याएँ (ख) कन्याएँ (ग) कन्यागन (घ) इनमें से कोई नहीं
19. सर्वनाम के कितने भेद हैं ?  
 (क) चार (ख) छह (ग) आठ (घ) दस
20. कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है ?  
 (क) उत्तमपुरुषवाचक (ख) मध्यमपुरुषवाचक (ग) अन्यपुरुषवाचक (घ) निम्नपुरुषवाचक